



ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

सत्र 2024-25

कक्षा - 7

सत्र 1 पुनरावृत्ति पत्रक

विषय : हिंदी

अपठित बोध

प्रश्न 1. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

अनुशासन एक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होती है। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा करता है। विद्यालय, घर या समाज में अनुशासन का महत्व सब जगह है। बिना अनुशासन के जीवन में अव्यवस्था और असफलता ही हाथ लगती है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना ही नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी समझना है। यदि हर व्यक्ति अनुशासन का पालन करे तो समाज में शांति और समृद्धि बढ़ सकती है।

क) अनुशासन का किसमें महत्व है?

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| i) मनोरंजन में | iii) व्यक्ति को सफल बनाने में |
| ii) खेलने में | iv) खाना बनाने में |

ख) अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को कैसे पूरा करता है?

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| i) देर से | iii) समय पर और सही तरीके से |
| ii) गलत तरीके से | iv) बिना पूरा किए |

- ग) अनुशासन का महत्त्व कहाँ-कहाँ है?
घ) बिना अनुशासन के जीवन में क्या होता है?
ङ) अनुशासन का क्या अर्थ है?

व्याकरण

प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए।
दंत , उच्च, चंद्र, गृह

ख) दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
सजीव, जंगली, खामोशी, धर्म

ग) दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए।

आप, हिंसक, कठोर, निज

घ) दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए।

छात्र, चोर, साँप , वनवासी

ङ) दिए गए शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग- अलग कीजिए।

भरपेट, अवगुण, अधखिला, कमजोर

च) दिए गए शब्दों में प्रत्यय व मूल शब्द अलग- अलग कीजिए।

पाठक, पढ़नेवाला, खिलौना, बुलावा

छ) निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक का भेद बताइए।

- i) गीता ने गाना गाया।
- ii) वे लोग गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं।

- iii) गुरुजी ने छात्रों को पुरस्कार दिया।
- iv) पेड़ से पत्ता गिरा।

ज) दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए।

- i) रंगा सियार होना
- ii) एक से इक्कीस करना

झ) दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए व भेद बताइए।

- i) कोई यहाँ नहीं है।
- ii) यह मेरी किताब है।
- iii) जिसने यह काम किया, वह बहुत मेहनती है।
- iv) किसने दरवाजा खोला ?

प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) दिए गए शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

खटमल, अश्व, नदी, पानी

ख) दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए व भेद बताइए।

- i) उसके पास एक सुंदर घड़ी है।
- ii) हर बच्चे को खेलना चाहिए।"
- iii) हमारे स्कूल में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं।

ग) दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए।

गुब्बारा, नीति, बेटी, देवी

घ) दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए।

जिसका अंत न हो -

नीचे लिखा हुआ -

पाठ्यपुस्तक

हम पंछी उन्मुक्त गगन के

- क) पक्षी क्या भूलते जा रहे हैं?
- ख) पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं?
- ग) पंछी क्या खाते - पीते हैं?
- घ) 'हम पंछी उन्मुक्त गगन के' कविता का मुख्य संदेश क्या है?
- ङ) पक्षी क्यों व्यथित हैं?

हिमालय की बेटियाँ (लेख)

- क) हिमालय की बेटियाँ किसे कहा गया है और क्यों?
- ख) हिमालय की बेटियाँ पाठ का उद्देश्य क्या है?
- ग) हिमालय की बेटियाँ किन्हें कहा गया है और उसका दामाद कौन है?
- घ) हिमालय की बेटियाँ कौन है ?
- ङ) लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया है?

कठपुतली (कविता)

- क) पहली कठपुतली ने क्या कहा?
- ख) कठपुतली क्या होना चाहती है?
- ग) कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था?
- घ) 'कठपुतली' कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?
- ङ) कविता में कठपुतली किस पर गुस्सा कर रही है?

मिठाईवाला

- क) मिठाईवाला मिठाइयाँ बेचने से पहले और क्या-क्या बेचा करता था?
- ख) मिठाईवाला पाठ में फेरीवाला सबसे पहले क्या बनकर आया?
- ग) कौन मिठाई वाले के पास खिंचे चले आते थे और क्यों ?

घ) 'मिठाईवाला' पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है?

ड) मिठाईवाले में वे कौन-से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे?

पापा खो गए

क) खंभा को बरसात की रात क्यों पसंद नहीं है?

ख) पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है?

ग) पेड़ ने खंभा को कैसे बचाया?

घ) लड़की के दिमाग में कौन-कौन से प्रश्न उठते हैं?

ड) किस घटना को याद कर पेड़ थर-थर काँपने लगता है?

शाम- एक किसान (कविता)

(क) कौन किस रूप में बैठा है?

(ख) जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत होते हैं?

(ग) अंधकार दूर सिमटा कैसा लग रहा है?

(घ) इस कविता में किस वातावरण का चित्रण है?

(ड) दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है?

अपूर्व अनुभव (संस्मरण)

क) तोतो-चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता किसे दिया था?

(ख) किसी पेड़ को यासुकी-चान निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था?

(ग) तोतो चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था?

(घ) बच्चे दूसरे के पेड़ों पर क्यों नहीं चढ़ते थे?

(ड) यासुकी-चान पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था?

रचनात्मक लेखन

प्रश्न 5. 'पर्यावरण संरक्षण' विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए ।

प्रश्न 6. दो मित्रों में अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर हो रही बातचीत को लगभग 60- 80 शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए ।

प्रश्न 7. मित्र के जन्मदिन की पार्टी में न आ पाने का कारण बताते हुए लगभग 60- 80 शब्दों में संदेश लिखिए।

प्रश्न 8. 'आत्मनिर्भर भारत' विषय पर लगभग 20 - 30 शब्दों में नारा लिखिए।

प्रश्न 9. अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखें जिसमें आप पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार के लिए सुझाव दें।